



पारंपरिक प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण की तुलना

Ranjana, Research Scholar, Department of Physical Education, Glocal University, Saharanpur
Dr. Nitin Kumar, Professor, Department of Physical Education, Glocal University, Saharanpur

सार

पारंपरिक प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण दोनों ही खेलों में खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सहनशक्ति, ताकत, और समग्र शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना है, जबकि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विशेष रूप से विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता में सुधार के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पेपर में, इन दोनों प्रशिक्षण विधियों की तुलना की गई है, जिसमें उनकी विशेषताएँ, लाभ, और सीमाएँ प्रस्तुत की गई हैं। परिणामस्वरूप, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जबकि पारंपरिक प्रशिक्षण समग्र फिटनेस और सहनशक्ति को बेहतर बनाता है, वहीं प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विस्फोटक शक्ति और गति के लिए अधिक प्रभावी है। दोनों प्रशिक्षण विधियाँ विशिष्ट लक्ष्यों के अनुसार उपयुक्त होती हैं, और इन्हें संयोजित करके अधिकतम खेल प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

कीवर्ड: पारंपरिक प्रशिक्षण, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, विस्फोटक शक्ति, गति, चपलता, सहनशक्ति, शारीरिक फिटनेस, खेल प्रदर्शन.

परिचय:

खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं। इन विधियों में पारंपरिक प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रत्येक विधि का उद्देश्य खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता को एक विशिष्ट दिशा में सुधारना होता है, और दोनों ही विधियाँ खेलों में सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। पारंपरिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति, सहनशक्ति, और सामान्य फिटनेस को सुधारना है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में भार उठाना, दौड़ना, एरोबिक व्यायाम, और अन्य सामान्य शारीरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। यह विधि शरीर को मजबूत बनाने के साथ—साथ सहनशक्ति और ताकत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो किसी भी खेल की बुनियादी आवश्यकता होती है। वहीं, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण एक विशिष्ट विधि है जो विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता को सुधारने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस प्रशिक्षण में उच्च तीव्रता वाले अभ्यास होते हैं, जैसे जंपिंग, बॉक्स जंप्स, और साइड लंग्स, जो मांसपेशियों को त्वरित और उच्च तीव्रता से काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं। प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण खिलाड़ियों को अधिक तेज़, प्रतिक्रियाशील, और विस्फोटक बनाने में मदद करता है, जो विशेष रूप से टीम खेलों और खेलों में जहां तेज़ गति और त्वरित दिशा परिवर्तन की आवश्यकता होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अलेक्जेंडर एट अल. (2015) के अनुसार, पारंपरिक प्रशिक्षण विधियाँ खिलाड़ियों को मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति, और शारीरिक स्थिति को स्थिर रूप से सुधारने में मदद करती हैं। उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रशिक्षण विधि खेलों के लिए बुनियादी शारीरिक क्षमता बनाने में सहायक होती है, लेकिन इसमें विस्फोटक शक्ति और गति को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कोई अभ्यास नहीं होता।

ग्रेगोरी (2018) ने अपने अध्ययन में पारंपरिक प्रशिक्षण के सकारात्मक प्रभावों पर चर्चा की है, जिसमें कहा गया है कि यह विधि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों की ताकत और सहनशक्ति को बनाए रखने में सहायक है, लेकिन इसमें गति या चपलता में सुधार के लिए पर्याप्त उत्तेजना नहीं होती। ओलिवर एट अल. (2012) ने अपने अध्ययन में प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के प्रभावों का मूल्यांकन किया और पाया कि यह विधि खिलाड़ी की विस्फोटक शक्ति और गति में महत्वपूर्ण सुधार करती है। उनके अनुसार, प्लायोमेट्रिक अभ्यासों से विस्फोटक ताकत और चपलता में औसतन 15–20% तक सुधार देखा गया है।

जोन्स और स्मिथ (2017) ने भी प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के प्रभावों पर एक अध्ययन किया और कहा कि यह विधि फुटबॉल, बास्केटबॉल, और खो-खो जैसे खेलों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जहां तेज़ गति, दिशा बदलने और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

हैरीसन (2019) ने पारंपरिक और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण के बीच तुलना की। उनके अनुसार, जबकि पारंपरिक प्रशिक्षण समग्र शारीरिक क्षमता में सुधार करता है, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण विशेष रूप से विस्फोटक शक्ति और गति को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी होता है। उन्होंने यह भी पाया कि जब दोनों विधियों का संयोजन किया जाता है, तो खिलाड़ी की समग्र प्रदर्शन क्षमता में अधिक सुधार देखा जाता है।

चिपमैन (2014) ने दोनों प्रकार के प्रशिक्षण की प्रभावशीलता पर चर्चा की और बताया कि पारंपरिक



**Multidisciplinary Indexed/Peer Reviewed Journal. SJIF Impact Factor 2023 -6.753**

प्रशिक्षण खिलाड़ियों की सहनशक्ति और ताकत में सुधार करता है, लेकिन चपलता और गति जैसे कौशल को बढ़ाने के लिए प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण अधिक प्रभावी होता है। इसने यह भी बताया कि यदि दोनों विधियों को संयोजित किया जाए, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।

पारंपरिक और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण की तुलना

खेलों और शारीरिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। इनमें पारंपरिक प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण प्रमुख हैं। दोनों विधियाँ अलग-अलग लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ डिजाइन की गई हैं, और इनका प्रभाव भी खेल प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं पर होता है। इस तुलना में हम इन दोनों प्रशिक्षण विधियों के लाभ, विशेषताएँ, और सीमाओं का विश्लेषण करेंगे।

1. पारंपरिक प्रशिक्षण

पारंपरिक प्रशिक्षण एक शारीरिक प्रशिक्षण पद्धति है, जो मुख्य रूप से ताकत, सहनशक्ति, और सामान्य शारीरिक फिटनेस को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें वजन उठाना, लंबी दूरी की दौड़, एरोबिक व्यायाम, और अन्य सामान्य शारीरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

विशेषताएँ:

मुख्य रूप से शारीरिक ताकत और सहनशक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है।

इसमें वजन उठाने, दौड़ने, और सामान्य व्यायाम शामिल होते हैं।

सहनशक्ति और मांसपेशियों की ताकत पर ध्यान केंद्रित होता है।

कम तीव्रता वाले अभ्यास होते हैं जो शारीरिक फिटनेस को स्थिर रूप से बढ़ाते हैं।

लाभ:

यह शारीरिक ताकत और सहनशक्ति को बेहतर बनाता है, जो हर खेल के लिए आवश्यक होता है।

शरीर को स्थिर और मजबूत बनाता है, जिससे चोटों का खतरा कम होता है।

यह शुरुआती स्तर के खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है।

ताकत, सहनशक्ति, और लचीलापन में सुधार होता है।

सीमाएँ:

यह विस्फोटक शक्ति और गति में सुधार के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है।

इस विधि से सुधार सामान्य रूप से धीमे होते हैं और समय अधिक लगता है।

2. प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण

प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण एक उच्च तीव्रता वाला प्रशिक्षण है, जिसे विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें जंपिंग, बॉक्स जंप्स, साइड लंग्स, और अन्य उच्च तीव्रता वाले अभ्यास शामिल होते हैं, जो मांसपेशियों को जल्दी और तीव्र गति से सक्रिय करते हैं।

विशेषताएँ:

विस्फोटक शक्ति और गति को बढ़ाने के लिए अभ्यास।

कूदने, लांचने, और जंपिंग जैसे तेज़ गति वाले अभ्यास शामिल होते हैं।

चपलता और दिशा बदलने की क्षमता में सुधार होता है।

उच्च-तीव्रता वाले व्यायाम होते हैं जो त्वरित परिणाम देते हैं।

लाभ:

यह खेलों में जहां तेज़ गति और त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, वहाँ अत्यधिक प्रभावी होता है।

विशेष रूप से टीम खेलों जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो में तेज़ दिशा बदलने की क्षमता में सुधार होता है।

इस प्रशिक्षण से गति और शक्ति में तेज़ सुधार होता है।

खिलाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता, विशेषकर विस्फोटक शक्ति और गति में तेज़ी से वृद्धि होती है।

सीमाएँ:

उच्च तीव्रता के कारण चोटों का खतरा अधिक होता है।

यह केवल विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता जैसे विशेष गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समग्र फिटनेस या सहनशक्ति पर इसका प्रभाव कम होता है।

यह विधि उन खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त नहीं है जो शुरुआती स्तर पर हैं या जिनकी शारीरिक तैयारी नहीं है।



सारणी पारंपरिक और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण की तुलना

मापदंड	पारंपरिक प्रशिक्षण	प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण
लक्ष्य	ताकत, सहनशक्ति, और समग्र फिटनेस में सुधार	विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता में सुधार
प्रशिक्षण विधिया	दौड़ना, बजन उठाना, एरोबिक व्यायाम आदि	बॉक्स जंप्स, साइड जंप्स, लांचने, कूदना
प्रगति की दर	धीरे-धीरे और स्थिर	तेजी से, तुरंत परिणाम
उपयुक्तता	सभी फिटनेस स्तरों और उम्र के खिलाड़ियों के लिए	उच्च स्तर के प्रशिक्षित खिलाड़ियों के लिए
खतरे	चोट का खतरा कम (कम तीव्रता)	चोट का खतरा अधिक (उच्च तीव्रता)
समय की आवश्यकता	लंबी अवधि (सप्ताहों/महीनों में सुधार)	कम समय (तेज, तीव्र अभ्यास)
प्रभाव	ताकत, सहनशक्ति, स्थिरता	विस्फोटक शक्ति, गति, चपलता
प्रकार	समग्र शारीरिक विकास	विशिष्ट शारीरिक गुणों को सुधारने के लिए

निष्कर्ष:

पारंपरिक प्रशिक्षण और प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण दोनों ही अलग—अलग उद्देश्यों के लिए उपयोगी होते हैं। पारंपरिक प्रशिक्षण उन खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है जिन्हें समग्र शारीरिक फिटनेस और सहनशक्ति की आवश्यकता है। यह धीमी गति से लेकिन स्थिर परिणाम देता है और खेलों के लिए बुनियादी शारीरिक क्षमता बनाने में मदद करता है।

प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण उच्च—तीव्रता वाला प्रशिक्षण है, जो विशेष रूप से विस्फोटक शक्ति, गति, और चपलता में सुधार के लिए प्रभावी होता है। यह उन खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है जो तेज गति, त्वरित दिशा परिवर्तन, और विस्फोटक शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों में भाग लेते हैं।

संदर्भ:

- अलेक्जेंडर, टी., एट अल. (2015)। शारीरिक फिटनेस पर पारंपरिक प्रशिक्षण का प्रभाव। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, 9 (2), 125–134।
- ग्रेगरी, डी. (2018)। एथलीटों पर पारंपरिक शक्ति प्रशिक्षण की प्रभावशीलता। स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल, 34 (1), 45–58।
- ओलिवर, जेएल, एट अल (2012)। एथलीटों में विस्फोटक शक्ति पर प्लाईमेट्रिक प्रशिक्षण के प्रभाव। जर्नल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च, 26 (3), 345–351।
- जोन्स, एस. एंड स्मिथ, एम. (2017)। टीम के खेल में गति और चपलता के लिए प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण। जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, 41 (5), 209–216।
- हैरिसन, बी. (2019)। प्लाईमेट्रिक और पारंपरिक प्रशिक्षण विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण। जर्नल ऑफ एथलेटिक प्रदर्शन, 28 (4), 112–120।
- चिपमैन, आर (2014)। बढ़ाया एथलेटिक प्रदर्शन के लिए प्लायोमेट्रिक और पारंपरिक प्रशिक्षण का संयोजन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 17 (2), 98–105।